

Ref: JAL:SEC:2024

6th June, 2024

The Manager
Listing Department
BSE Limited
25th Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street, Fort,
MUMBAI 400 001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
“Exchange Plaza”,
C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

SCRIP CODE: 532532

NAME OF SCRIP: JPASSOCIAT

Sub: Intimation for Public Announcement made pursuant to order passed by the National Company Law Tribunal under Section 13 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) for Jaiprakash Associates Limited, which is currently undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP)

Ref: Compliance/Disclosure requirements pursuant to Regulation 30(2) read with sub-clause 16(d) of Para A of Part A of Schedule III of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned matter and in continuation of Interim Resolution Professional's communication vide letter dated 6th June, 2024, this is to inform you that a Public Announcement has been made in accordance with Section 15 of the IBC, read with regulations framed thereunder, pursuant to the Order dated 3rd June, 2024 passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench (Hon'ble NCLT) for Jaiprakash Associates Limited (Company).

In lieu of the aforesaid, copy of the newspaper advertisements for public announcement dated 6th June, 2024, published in Economics Times & Financial Express (English) (All India Edition) and Jansatta (Hindi) (Delhi Edition), are attached along with this letter for your kind reference and records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

(SOM NATH GROVER)
Vice President & Company Secretary

Encl: As above



Registered Office : Sector-128, Noida - 201 304, Uttar Pradesh (India)
Phone : +91 (0120) 2470800
Delhi Office : JA House, 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 (India)
Phone: +91 (11) 49828500
Corporate Office : 64/4, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad-201010, Ghaziabad (U.P.) (India)
Phone: +91 (0120) 4963100, 4964100
CIN : L14106UP1995PLC019017 Website: www.jalindia.com
E-mail: jal.investor@jalindia.co.in

QS RANKING 2025 Indian varsities climb in rankings faster than G20 peers

MANU KAUSHIK
New Delhi, June 5

INDIAN UNIVERSITIES ARE climbing up the global pecking order faster than their G20 peers, according to the latest World University Rankings (WUR) 2025 by global higher education specialist firm Quacquarelli Symonds (QS).

Although there are no Indian universities in the top 100 list, the rankings show that the 61% of the universities in the country have improved their rankings as compared to the previous year. Delhi University, for instance, has witnessed the biggest jump by climbing 79 notches to reach the 328th position this year.

Also, over the past decade, India has experienced the highest growth in university representation among all G20 nations, with a remarkable 318% increase from 11 universities in the 2015 edition of the QS World University Rankings to 46 in the 2025 edition, the report said.

With the Indian universities, Indian Institute of Technology (IIT) Bombay ranked the highest at 118th position, followed by IIT Delhi at 150th position. In fact, four IITs have featured amongst the top 10 Indian universities. As per the rankings, IIT Bombay has shown improvement in both research quality and reputation parameters which led to

TOP 5 QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

2025	2024	Institution	Country
1	1	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	US
2	6	Imperial College London	UK
3	3	The University of Oxford	UK
4	4	Harvard University	UK
5	2	University of Cambridge	UK

QS World University Rankings 2025 from India

2025	2024	Institution
118	149	Indian Institute of Technology Bombay (IITB)
150	197	Indian Institute of Technology Delhi (IITD)
211	225	Indian Institute of Science
222	271	Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)
227	285	Indian Institute of Technology Madras (IITM)
328	407	University of Delhi

its rise within the Indian cohort.

The rankings points out that with 46 ranked universities, India has the third-largest representation in Asia, after Japan and China. Also, despite improving their academic and employer reputations, most Indian universities continue to lag behind in terms of internationalisation and global engagement.

"The growing prominence of Indian higher education is evident...the bold implementation of India's National Education Policy demonstrates the nation's commitment to modernising its education system and addressing challenges and leveraging opportunities. Emphasising sustainability, global engagement, and

employability will be vital in shaping India's higher education landscape," said Jessica Turner, CEO, QS.

Meanwhile, Massachusetts Institute of Technology (MIT) has maintained the top slot for 13th year in a row. As per the rankings, the Imperial College of London has grabbed the second position globally by overtaking both Oxford and Cambridge to become the highest-ranked UK institution.

The 21st edition of the QS WUR has featured over 1,500 global academic institutions who were ranked on nine parameters, including academic reputation (30% weightage), citations per faculty (20%), employer reputation (15%), faculty-student ratio (10%) and others.

UN warns of 'climate hell'

REUTERS
Brussels/Geneva, June 5

The average global temperature for the 12-month period to the end of May was 1.63 degrees Celsius

EACH OF THE past 12 months ranked as the warmest on record in year-on-year comparisons, the EU's climate change monitoring service said on Wednesday, as UN Secretary-General António Guterres called for urgent action to avert "climate hell".

The average global temperature for the 12-month period

to the end of May was 1.63 degrees Celsius (2.9 degrees Fahrenheit) above the pre-industrial average - making it the warmest such period since

record-keeping began in 1940, the Copernicus Climate Change Service said.

In a separate report, the UN's World Meteorological Organization said there is now an 80% chance that at least one of the next five years will mark the first calendar year with an average temperature that temporarily exceeds 1.5C above pre-industrial levels - up from a 66% chance last year.

Sunita Williams makes history: First woman to pilot spacecraft on test mission

PRESS TRUST OF INDIA
Houston, June 5

INDIAN-ORIGIN ASTRO-NAUT Sunita Williams flew to space for the third time on Wednesday along with a colleague, scripting history as the first members aboard Boeing's Starliner spacecraft to the International Space Station.

Boeing's Crew Flight Test mission carrying Williams, and Butch Wilmore lifted off from Cape Canaveral Space Force Station in Florida after multiple delays.

Williams, 58, is the pilot for the flight test while Wilmore, 61, is the commander of the mission.

Williams also made history as the first woman to embark on such a mission. And it won't be her first entry in history books.

In 2012, during a prior trip to the International Space Station, Williams became the first person to finish a triathlon in



NASA astronauts Butch Wilmore (left) and Sunita Williams were launched on the Boeing Starliner capsule for a trip to the international space station on Wednesday

AP/PTI

space, during which she simulated swimming using a weight-lifting machine and ran on a treadmill while

strapped in by a harness so she wouldn't float away.

That came after she ran the Boston Marathon from the

space station in 2007.

Williams received her commission as an Ensign in the United States Navy from the

United States Naval Academy in May 1987. Williams was selected as an astronaut by NASA in 1998 and is a veteran of two space missions, Expeditions 14/15 in 2006 and 32/33 and 2012.

She served as a flight engineer on Expedition 32 and then commander of Expedition 33.

Boeing's Crew Flight Test mission has been delayed for several years because of setbacks in the spacecraft's development.

Last-minute computer trouble nixed Saturday's launch attempt for Boeing's first astronaut flight, the latest in a string of delays over the years.

It was the second launch attempt. The first try on May 6 was delayed for leak checks and rocket repairs. With the launch, Boeing became the second private firm able to provide crew transport to and from the ISS, alongside Elon Musk's SpaceX.

Retiring Sunil Chhetri wants team to focus on must-win farewell tie against Kuwait

SAYAK DUTTA
Kolkata, June 5

EVERYONE IS TALKING about Sunil Chhetri.

Lallianzuala Chhangte, the speedy winger, 'hopes and believes it would be me assisting Chhetri bhaji'. Sahal Abdul Samad, the stylish midfielder, vowed to 'fight for Sunil bhaji'. Defender Subhashish Bose wants the team to win, which would be 'a farewell gift for Sunil bhaji'.

Couldn't hide his emotions, saying how 'sad' he was that his - rather, Indian football's Man Friday - will retire from international football after the 2026 World Cup and 2027 Asian Cup qualifier against Kuwait here on Thursday.

Everyone's talking about Chhetri. But the 39-year-old wants everyone to talk - and focus - about the match, which is crucial for India's progression hopes and can make or break the campaign.

A smile while entering a

packed room for a media conference on the match-eve was a rare occasion Chhetri showed emotions on Wednesday.

"I am trying really hard to not think about this game like this. It's not about me and my last game. It's about us and Kuwait. Inside, I am fighting this small battle. Please don't make it worse by asking me again and again how I am feeling. I don't want to address it. We really need to win this game. This is not going to be easy, but we are ready. We will have tremendous support here in Kolkata," Chhetri said.

Indeed, Chhetri has a point.

India must not risk getting overwhelmed by emotions in a match where they have to be clinical to eke out a favourable result.

India are in the second position in Group A with four points. Asian champions Qatar top the table with

12 points, Afghanistan are third with four points, but an inferior goal difference than India, and Kuwait are at the bottom with three points. The top two teams of each group will be making their way into the third round of

the qualifiers as well as securing direct qualification for the AFC Asian Cup 2027 in Saudi Arabia

A win would put India in a comfortable position to advance to the third round of the World Cup qualifiers. It'll be a historic feat and although they aren't expected to make it to the World Cup, being among Asia's elite in the final round would mean better opponents, more matches and greater high-level exposure.

The only time Chhetri delved into the future, was when he was asked if he would reconsider his decision to retire.


"If we win tomorrow, we almost qualify. Five top games home and away, I am going to wear nice suits and watch the match wherever the team travels," he said. "I am going to watch the boys play. I have thought about it a lot. I had a great ride all

these 19 years."

Lucky venue

It's almost poetic that Chhetri plays his final match in a city that had shaped his career since his days as a Mohun Bagan player back in 2002-05 and then again in 2011-12. He has even played for Bagan's arch-rivals East Bengal for a year in between. The venue is a lucky one as well with the Indian team not having lost in the Salt Lake Stadium since August 2006.

The opponents on the night, Kuwait, are also the last team India has defeated in an international match with a 1-0 win in the group league opener back in November. Since then, India have had a terrible few months, losing to Qatar 0-3, getting eliminated from the Asian Cup after defeats to Australia, Uzbekistan and Syria, where India failed to find the net even once and then the draw and the humiliating 1-2 loss against Afghanistan in World Cup qualifiers, the latter coming in Guwahati.



TruCap Finance Limited

(Formerly Dhanvarsha Finvest Limited)

CIN: L24231MH1994PLC334457

Regd. Office: 3rd Floor, A Wing, D.J. House, Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai - 400 069.
Website: www.trucapfinance.com Phone No. 022 6845 7200

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF TRUCAP FINANCE LIMITED (FORMERLY DHANVARSHA FINVEST LIMITED) TO BE HELD ON THURSDAY, JUNE 27, 2024, THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of TruCap Finance Limited (formerly Dhanvarsha Finvest Limited) ("Company") will be held on Thursday, June 27, 2024 at 03.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder ("Act") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), read with General Circulars Nos. 19/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020 respectively and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), to transact the businesses that is set forth in the notice of the EGM dated May 28, 2024 ("Notice").

Since the requirement to send physical copies of the notice of the general meeting(s) has been dispensed with under MCA Circulars, the Company has sent the Notice on June 04, 2024 electronically only to those Members who have registered their email IDs with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent i.e. MCS Share Transfer Agent Limited ("RTA") or Depository Participants (DPs). The Notice is also available on the Company's website at www.trucapfinance.com and can also be accessed on the website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Members can attend the EGM through VCI/OAVM on live streaming link made available by CDSL at <https://www.evotingindia.com> by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVSN of the Company. The procedure for joining the EGM through VCI/OAVM and to raise questions during the EGM have been set out in the Notice.

Voting through electronic mode:

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 24 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility to its Members holding shares as on Thursday, June 20, 2024, being the cut-off date ("Cut-off date") to exercise their right to vote by electronic means on all resolution(s) set out in the Notice through e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions with respect to casting of vote through remote e-voting and attending the EGM through VCI/OAVM have been set out in the Notice.

The detailed instructions for remote e-voting and e-voting at EGM are given in the Notice. Members are requested to note the following:

- The Members, whose name appears in the Register of the Members/Registrar of Beneficial Owners as on the Cut-off date i.e., Thursday, June 20, 2024, will be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting during the EGM. The business(es) as set out in the Notice will be transacted through voting by electronic means only.
- The remote e-voting shall commence on Monday, June 24, 2024, at 09.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, June 26, 2024, at 05.00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to cast their vote through remote e-voting beyond the said date and time. Once the vote on resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility of e-voting shall also be made available during the EGM and the Members attending the EGM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through remote e-voting during the EGM. Further the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM are eligible to attend/participate in the EGM through VCI/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The persons who have become Member of the Company after circulation of the Notice and their names appear in the Register of Members/Registered Beneficial Owners as on the Cut-off date, may obtain the login id and password sending a request through e-mail to RTA mentioning their demat account number/folio number, PAN, name and registered address.
- A person who is not a member as on the Cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

M/s. Mayank Arora & Co., Practising Company Secretaries, (FCS 10378 Holding Certificate of Practice No. 13609 from the Institute of Company Secretaries of India) ("Scrutinizer"), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting during the EGM in a fair and transparent manner.

In case of any queries or issues regarding attending EGM & e-voting from the e-voting system, you may refer the Frequently Asked Questions and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under Help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact toll free no. 1800 22 55 33. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurus, Malafal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013.

For TruCap Finance Limited
Sd/-
Sonal Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

June 04, 2024
Mumbai



MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED

(D.P. JINDAL GROUP COMPANY)

Registered Office: Pipe Nagar, Village - Sukeli, N.H.17, B.K.G. Road, Taluka-Roha, Distt. Raigad - 402126, Maharashtra, CIN: L99999MH1988PLC080545
Corporate Office: Plot No. 30, Institutional Sector-44, Gurugram-122 003; Tel.: 02194-238511;
Website: www.jindal.com E-mail: secretarial@mahaseam.com

NOTICE
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time.

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has remained unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. Accordingly, the Company has sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address.

The Company has uploaded details of such shareholders and shares due for transfer to Demat account of IEPF Authority on its website at <https://www.jindal.com> to verify the details of unclaimed dividends and shares liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority.

In view of the above, all such shareholders are requested to make an application to the Company/Registrar by 15th October, 2024 for claiming the unpaid dividend of FY 2016-17 so that their shares are not transferred to the IEPF. It may please be noted that if no claim/application is received by the Company or the Registrar by the aforesaid date, the Company will be compelled to transfer the underlying shares to the IEPF, without any further notice.

Shareholders may also note that both the unpaid/unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as sufficient information and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the Demat Account of IEPF Authority pursuant to the Rules. Where shares are held in demat form, the Company will give appropriate instructions in the form of Corporate action to the Depositories to enable them to transfer the said shares to the demat account of the IEPF Authority.

For any Clarification on the matter, please contact the Company at the Corporate office at Plot No. 30, Institutional Sector - 44, Gurugram-122 003 or email at secretarial@mahaseam.com or the Company's Registrar and Share Transfer Agent at Alankit Assignments Limited (Unit - MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED), Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055.

We hereby further request to all the shareholders to please update their email ID, present Address, Bank Account detail, Nomination and KYC details:

a) with their respective Depository Participants, if shares are held by them in Demat mode or b) with Company's RTA, by submitting Forms ISR-1, ISR-2, SH-13/ SH-14/ ISR-3 (as applicable), if the shares are held by them in Physical mode, in case they have not updated the said details/information.

For MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED
Sd/-
Ram Ji Nigam
Company Secretary

Gurugram
05th June, 2024



JINDAL DRILLING AND INDUSTRIES LIMITED

(D.P. JINDAL GROUP COMPANY)

Registered Office: Pipe Nagar, Village- Sukeli, N.H.17, B.K.G. Road, Taluka-Roha, Distt. Raigad-402126, Maharashtra
CIN: L27201MH1983PLC233813
Corporate Office: Plot No. 30, Institutional Sector - 44, Gurugram - 122 003; Tel.: 02194-238511
E-mail: secretarial@jindaldrilling.in; Website: www.jindal.com

NOTICE
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time.

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has remained unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. Accordingly, the Company has sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address.

The Company has uploaded details of such shareholders and shares due for transfer to Demat account of IEPF Authority on its website at <https://www.jindal.com> to verify the details of unclaimed dividends and shares liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority.

In view of the above, all such shareholders are requested to make an application to the Company/Registrar by 15th October, 2024 for claiming the unpaid dividend of FY 2016-17 so that their shares are not transferred to the IEPF. It may please be noted that if no claim/application is received by the Company or the Registrar by the aforesaid date, the Company will be compelled to transfer the underlying shares to the IEPF, without any further notice.

Shareholders may also note that both the unpaid/unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as sufficient information and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the Demat Account of IEPF Authority pursuant to the Rules. Where shares are held in demat form, the Company will give appropriate instructions in the form of Corporate action to the Depositories to enable them to transfer the said shares to the demat account of the IEPF Authority.


For any Clarification on the matter, please contact the Company at the Corporate office at Plot No. 30, Institutional Sector - 44, Gurugram-122 003 or email at secretarial@jindaldrilling.in or the Company's Registrar and Share Transfer Agent at Alankit Assignments Limited (Unit - JINDAL DRILLING AND INDUSTRIES LIMITED), Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055.

We hereby further request to all the shareholders to please update their email ID, present Address, Bank Account detail, Nomination and KYC details:

a) with their respective Depository Participants, if shares are held by them in Demat mode or b) with Company's RTA, by submitting Forms ISR-1, ISR-2, SH-13/ SH-14/ ISR-3 (as applicable), if the shares are held by them in Physical mode, in case they have not updated the said details/information.

For JINDAL DRILLING AND INDUSTRIES LTD.
Sd/-
Binaya Kumar Dash
Company Secretary

Gurugram
05th June, 2024



FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

Sr. No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of corporate debtor	Jaiprakash Associates Limited (in CIRP)
2.	Date of incorporation of corporate debtor	15 th November 1995
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RCC Kanpur
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L14106UP1995PLC019017
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: Sector 128, Noida, Uttar Pradesh, India, 201304. Corporate Office: 6/4 Site- 4 Industrial Area Sahababad, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, 201010
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	03 rd June 2024
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	30 th November 2024 (180 days from the Insolvency commencement date)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Bhuvan Madan IBBI/PA-001/IP-P/1004/2017-2018/11655
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	A-103 Ashok Vihar Phase-3 (Behind Laxmi Bai College), Delhi - 110052 Email id: Madan.bhuvan@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: Sector 128, Noida, Uttar Pradesh, India, 201304 Kindly ensure to send all claim and claim related queries only at: cirpjai@claims@gmail.com . For any other query please mail to: cirpjai@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	17 th June 2024 (14 days from the date of appointment of IRP)
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Allottees under real estate projects
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Mr. Amarpal IBBI/PA-001/IP-P/01584/2018-2019/12411 Mr. Devendra Umrao IBBI Registration No. IBBI/PA-003/IP-ICAI-N-00223/2019-2020/12640 Mr. Gaurav Katiyar IBBI Registration No. IBBI/PA-001/IP-P/00209/2017-2018/10409
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a) Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads and http://jalindia.com/ (b) https://ibbi.gov.in/en/insolvency-professional-and-http://jalindia.com/ Physical Address: The Insolvency and Bankruptcy Board (IBBI) 7 th Floor, Mayur Bhavan, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-110001

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Allahabad Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED on 03rd June 2024. The creditors of JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 17th June 2024 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class Allottee under real estate project in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Mr. Bhuvan Madan
A-103 Ashok Vihar Phase-3 (Behind Laxmi Bai College)
New Delhi, National Capital Territory of Delhi, 110052
IBBI Registration No. IBBI/PA-001/IP-P/1004/2017-2018/11655
AFA Valid Till: 24th December 2024

Place: Delhi
Date: 06th June 2024

THE ECONOMIC TIMES
NEW DELHI, INDIA
THURSDAY 6 JUNE 2024
WWW.ECONOMICTIMES.COM

Companies

In recent months, many global airlines got tax evasion notices from Indian authorities **'Foreign Carriers may Quit India If Tax Issues Persist'**

Aridand Majumder
@timesgroup.com

Dubai: Foreign airlines may withdraw from the Indian market if India doesn't address concerns over taxation, the chief of IATA warned on Tuesday.

Over the last few months, India's offices of multiple global airlines groups have received tax evasion notices from the Directorate General of GST Intelligence (DGI).



GETTY IMAGES

The airlines that have been served notices include Emirates, British Airways, Lufthansa Singapore Airlines, Etihad Airways, Thai Airways, Qatar Airways and Saudia Arabia Airlines.

"As a result of this, you could see these airlines withdrawing from the Indian market. How it happens is that airlines gradually reduce the number of flights because it impacts their profitability and then go for a total withdrawal," Wille Walsh, director general of International Air Transport Association (IATA), said in a response to a query from ET.

NEED RIGHT POLICIES

When you look at the Chinese market, which is 12% of global aviation, it signifies the potential that can be unlocked in India and it can only be done if the right policies are in place.

WILLE WALSH

Director General of IATA

He was speaking on the sidelines of the Annual General Meeting of IATA at Dubai. IATA counts 300 airlines as its members.

The notices by Indian authorities were served for non-payment of tax on import of services like maintenance, payment to crew, aircraft lease rentals etc. These services are provided by the airlines to their Indian entity.

IATA, in its representation to the Indian government, has argued that the piece of service was both head office and branch office and airlines should be liable to pay only what is taxable in India, like payment for hotel accommodation by the Indian staff outside of India.

A senior airline official explained that when a foreign airline gets permission to fly to India, the DGCA gives permission to the global headquarters and not to the local unit. So hold the liability services is a grey area of law. "We have petitioned the government to see this is an abeyance," he said.

ELECTIONS & MARKETS **A Welfare Reset can Erode India's Valuation Premium**

Ashtosh Shyam @timesgroup.com

ET Markets Group: India's market valuation and relative premium to the emerging markets may come down in the near term amid the possibility of higher allocation to social welfare schemes by the government.


The Nifty 50 index trades at a times one-year forward earnings, making India one of the most expensive markets in the world. This is about 20% higher than its long-term average.



Nearly half of the Nifty 50 constituents currently trade at a premium to their historical averages. Among major global indices, the S&P 500 trades at a forward price-earnings (P/E) of 20.1, 20% higher than the long-term average.

The Taiwanese benchmark index with a P/E of 17.7 is 27% more expensive than its historical average.

The extent of stretched valuation can be gauged from the fact that the spread between the Nifty earnings yield and the inverted P/E- and 10-year bond yield, has expanded to 180 basis points against the long-term average of 100 bps. Historically, the spread has been around 100-150 bps when the market peak.



With India's market cap at around \$5 trillion, the country's share in the global market cap is at 4% compared with the historical average of 2.7%.

Market experts believe country's political stability premium may take a hit after a fractured mandate in the latest general elections. India trades at nearly a 60% premium to the emerging market counterparts compared with the long-term average valuation of 40%.

Investors are adopting a wait and watch approach to their portfolios. They are venturing into 'hot' market stocks like PSU, capital goods, realty and capital market proxies while shifting to beneficiaries of the rural consumption theme, such as consumer staples and two-wheeler stocks.

TIMES impact

DON'T JUST COMPETE. DOMINATE YOUR MARKET.

Leverage the power of print and digital for your business and watch your company soar to its maximum potential.

Register now for our free seminar.
Call: 1800 3096 208
or visit: toirsvp.com/24

Date: 20th - 22nd June
Venue: The Park Hotel, Delhi

Scan to register

THE TIMES OF INDIA THE ECONOMIC TIMES
DelhiTimes GurgaonTimes

MAJOR RELIEF FOR OVER 20,000 HOMEBUYERS

Suraksha Group Takes Control of Jaypee Infra

To infuse ₹125 crore to start construction of stalled housing projects across Delhi-NCR

Press Trust of India

New Delhi: In a big relief to over 20,000 homebuyers, Suraksha Group has taken control of debt-ridden realty firm Jaypee InfraTech by constituting a three-member board and will soon infuse ₹125 crore to start construction of stalled housing projects across Delhi-NCR.

The takeover follows a two-year appellate tribunal NCLAT decision on May 24, upholding Suraksha Realty's bid to acquire Jaypee InfraTech while directing it to pay an additional ₹1,334 crore as farmers' compensation.

According to a regulatory filing by Jaypee InfraTech on Wednesday, Suraksha Group informed the IMC (implementation and monitoring committee) that on May 24, 2024, i.e., the date of the NCLAT order, should be treated as the approval date as defined in the approved resolution plan.

The IMC, in its meeting held on Tuesday, approved the appointment of Sushil V. Vaidya, who is the promoter of Suraksha Group, as a non-executive director. It also approved the appointment of Aakrsh Anil Kadam as independent director. Dave has also been appointed man-

aging director and chief executive officer. According to sources, Suraksha Group will infuse ₹125 crore in Jaypee InfraTech by June 35 and will soon start the construction process. It will also start making payment to YEIDA as per the schedule.

Upholding the National Company Law Tribunal (NCLT) decision of March 2023, the NCLAT on May 24 had said it was made to avoid any further delay in the implementation of the resolution plan and also to take care of the interests of all stakeholders, including homebuyers and claim of Yamuna Express Development Authority (YEIDA) for additional compensation of the farmers.

POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION & RESEARCH CHANDIGARH
CHANDIGARH

Ref: Cabot Travel Agency Notice No. PFE23-24G96
Following changes made:

No.	Requirement	Original (Revised/Revised)	Revised (Revised)
1.	Form Name	Submission (Revised)	Checklist
2.	Form No.	1419001959P/201917	1419001959P/201917

RO:12815
RO.DT:05.06.2024, W:8.00, H:15.00

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JAYPEE INFRA TECH PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of corporate debtor: JAYPEE INFRA TECH PRIVATE LIMITED
2. Date of commencement of insolvency: 15th November 2019
3. Address of corporate debtor: 1500, Karpur, Sector 14, Gurgaon, Haryana, India, 122002
4. Corporate Entity No. / Limited Liability Partnership (LLP) Identification Number: 1419001959P/201917
5. Name and registration number of the insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
6. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
7. Address and e-mail of the interim resolution professional: M. Shivan Madan, 1500, Karpur, Sector 14, Gurgaon, Haryana, India, 122002. Email: shivan.madan@gmail.com
8. Address and e-mail to be used for communication with the interim resolution professional: M. Shivan Madan, 1500, Karpur, Sector 14, Gurgaon, Haryana, India, 122002. Email: shivan.madan@gmail.com
9. Last date for submission of claims: 17th June 2024 (14 days from the date of appointment of the interim resolution professional)
10. Classes of creditors, if any, other than of class 1, as per section 5(2), as per section 5(2), as per section 5(2), as per section 5(2)
11. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
12. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
13. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
14. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JAYPEE INFRA TECH PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of corporate debtor: JAYPEE INFRA TECH PRIVATE LIMITED
2. Date of commencement of insolvency: 15th November 2019
3. Address of corporate debtor: 1500, Karpur, Sector 14, Gurgaon, Haryana, India, 122002
4. Corporate Entity No. / Limited Liability Partnership (LLP) Identification Number: 1419001959P/201917
5. Name and registration number of the insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
6. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
7. Address and e-mail of the interim resolution professional: M. Shivan Madan, 1500, Karpur, Sector 14, Gurgaon, Haryana, India, 122002. Email: shivan.madan@gmail.com
8. Address and e-mail to be used for communication with the interim resolution professional: M. Shivan Madan, 1500, Karpur, Sector 14, Gurgaon, Haryana, India, 122002. Email: shivan.madan@gmail.com
9. Last date for submission of claims: 17th June 2024 (14 days from the date of appointment of the interim resolution professional)
10. Classes of creditors, if any, other than of class 1, as per section 5(2), as per section 5(2), as per section 5(2), as per section 5(2)
11. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
12. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
13. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
14. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JAYPEE INFRA TECH PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of corporate debtor: JAYPEE INFRA TECH PRIVATE LIMITED
2. Date of commencement of insolvency: 15th November 2019
3. Address of corporate debtor: 1500, Karpur, Sector 14, Gurgaon, Haryana, India, 122002
4. Corporate Entity No. / Limited Liability Partnership (LLP) Identification Number: 1419001959P/201917
5. Name and registration number of the insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
6. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
7. Address and e-mail of the interim resolution professional: M. Shivan Madan, 1500, Karpur, Sector 14, Gurgaon, Haryana, India, 122002. Email: shivan.madan@gmail.com
8. Address and e-mail to be used for communication with the interim resolution professional: M. Shivan Madan, 1500, Karpur, Sector 14, Gurgaon, Haryana, India, 122002. Email: shivan.madan@gmail.com
9. Last date for submission of claims: 17th June 2024 (14 days from the date of appointment of the interim resolution professional)
10. Classes of creditors, if any, other than of class 1, as per section 5(2), as per section 5(2), as per section 5(2), as per section 5(2)
11. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
12. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
13. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917
14. Name of insolvency professional: M. Shivan Madan, 1419001959P/201917

